

**राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, हिमाचल प्रदेश
में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत 19-सितम्बर-2015 को
हिंदी दिवस एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन**

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और सरकार की राजभाषा नीति के प्रति अनुकूल वातावरण बनाने के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों में हर वर्ष हिंदी पखवाड़ा का आयोजन 14 सितम्बर से 28 सितम्बर तक किया जाता है। अतः हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, हिमाचल प्रदेश में 19-सितम्बर-2015 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें एन.आई.सी. के समस्त प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। हिंदी दिवस का आयोजन हिमाचल प्रदेश सचिवालय के समिति कक्ष में किया गया, जिसमें शिमला स्थित एन.आई.सी. के कार्यालयों के सभी अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित हुए तथा जिला स्थित कार्यालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भाग लिया।

हिंदी दिवस के आयोजन का शुभारम्भ मुख्य अतिथि श्री अजय सिंह चैहल, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी ने अपने शुभ विचारों को प्रस्तुत करते हुए, हिंदी का सरकारी कार्यों में अधिक से अधिक प्रयोग करना और राजभाषा हिंदी को पूरे प्रदेश और



श्री अजय सिंह चैहल, राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी समारोह की अध्यक्षता करते हुए

देश में बढ़ावा देने पर समस्त उपस्थित महानुभावों का मार्गदर्शन किया। इसके उपरांत श्री संजय शर्मा, हिंदी अधिकारी द्वारा आयोजन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए, निबंध तथा कविता लेखन एवं कविता पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। और राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, हिमाचल प्रदेश के समस्त कार्यालयों, जिसमें एन.आई.सी. राज्य इकाई और एन.आई.सी. के सभी 12 जिलों के कार्यालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।

हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए अधिकतम 5 विषय एवं कविता प्रतियोगिता के लिए भी एक सामान्य विषय, सभी को पूर्व में ही सूचित कर दिए गए थे। हिंदी निबंध के लिए पूर्व सूचित 5 विषयों में से 1 विषय प्रतियोगिता आरम्भ होने से पहले ही बताया गया, एवं इसी विषय पर ही सभी को निबंध लिखने के लिए कहा गया। हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता में 31 प्रतियोगियों तथा कविता लेखन एवं पाठन में 13 प्रतियोगियों ने भाग लिया। निबंध लेखन प्रतियोगिता में सभी भाग लेने वाले महानुभावों ने, दिए गए समय में, बहुत ही अच्छे निबंध लिखे।



निबंध प्रतियोगिता में भाग लेते हुए प्रतियोगी अधिकारी और कर्मचारी गण

उपरोक्त प्रतियोगिताओं में से निबंध प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्य के लिए श्री जयदीप नेगी जी को आमंत्रित किया गया, और उन्होंने एन.आई.सी. द्वारा निमंत्रण स्वीकार कर निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया। श्री जयदीप नेगी जी, विशेष कार्य अधिकारी हैं और हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालय द्वारा नराकास शिमला को भी निर्णायक मंडल के रूप में एक सदस्य को नामित करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु नराकास की ओर से सदस्य गण नहीं पधारे। अतः निर्णायक मंडल के दूसरे

सदस्य के रूप में श्री विजय कुमार गुप्ता, प्रधान प्रणाली विश्लेषक, जो कि ऍन आई सी में कार्यरत हैं, को नामित किया गया। कविता लेखन एवं कविता पाठ प्रतियोगिता के लिए निर्णायक मंडल के सदस्यों के रूप में श्री संदीप सूद, प्रधान प्रणाली विश्लेषक एवं श्री शैलेंदर कौशल, वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक को नामित किया गया। श्री संदीप सूद एवं श्री शैलेंदर कौशल दोनों ही ऍन आई सी में कार्यरत हैं।



श्री अजय सिंह चैहल, राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी निर्णायक मंडल के सदस्यों श्री जयदीप नेगी एवं श्री विजय गुप्ता के साथ

प्रतियोगिताओं के उपरांत कुछ ही समय पश्चात निर्णायक मंडल द्वारा उपरोक्त आयोजित प्रतियोगिताओं का परिणाम घोषित किया गया। निर्णायक मंडल द्वारा हिंदी निबंध व हिंदी कविता लेखन एवं कविता वाचन प्रतियोगिताओं में विजयी घोषित प्रतिभागियों के परिणाम व पुरस्कार राशि निम्नानुसार हैं।


हिंदी निबंध प्रतियोगिता	प्रतियोगिता मे अर्जित स्थान	पुरस्कार राशि
1. श्री मुकेश कुमार (6367)	प्रथम	रु.1400/-
2. श्री अखिलेश भारती (4433)	द्वितीय	रु.1200/-

3. श्री अनुज ढांगर (6566)	तृतीय	रु.900/-
4. श्री अश्वनी कुमार (2940)	सांत्वना	रु.500/-
5. श्री दलजीत सिंह राणा (5241)	सांत्वना	रु.500/-
6. श्री पंकज गुप्ता (4155)	सांत्वना	रु.500/-
7. श्री वीरेन्द्र प्रताप गुप्ता (6811)	सांत्वना	रु.500/-
8. श्री संदीप कुमार (4456)	सांत्वना	रु.500/-

हिंदी कविता वाचन प्रतियोगिता	प्रतियोगिता मे अर्जित स्थान	पुरस्कार राशि
1. श्री दीपक कुमार (6488)	प्रथम	रु.1400/-
2. श्री गुरप्रीत सिंह (6812)	द्वितीय	रु.1200/-
3. श्री संजय कुमार (4458)	तृतीय	रु.900/-
4. श्री राजीव कुमार (5245)	सांत्वना	रु.500/-
5. श्री अखिलेश भारती (4433)	सांत्वना	रु.500/-
6. श्री पंकज गुप्ता (4155)	सांत्वना	रु.500/-
7. श्री ब्रिजेन्द्र कुमार डोगरा (4635)	सांत्वना	रु.500/-
8. श्री भुपिंदर पाठक (2936)	सांत्वना	रु.500/-

हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यालयों के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अति उत्साह पूर्ण योगदान दिया। और कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरह आयोजित करने में श्री संजय शर्मा, श्री शंकर लाल एवं श्री हमेंद्र लाल का विशेष योगदान रहा।

समय के साथ कार्यक्रम को समापन समारोह की तरफ बढ़ाते हुए, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राजभाषा हिंदी को कार्यालय में अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए अपने अपने सुझाव साँझा किये और एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया।



एन.आई.सी. जिला केन्द्रों के सभी कार्यालयों से सभी अधिकारी और कर्मचारी गण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भाग लेते हुए

कार्यक्रम के समापन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि एवं राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी श्री अजय सिंह चौहल जी ने आमंत्रित निर्णायक मंडल के सदस्य श्री जयदीप नेगी जी का एवं सभी उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त किया, एवं कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी का धन्यवाद प्रकट किया। मुख्य अतिथि ने राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, हिमाचल प्रदेश में हिंदी में किये जा रहे गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए राजभाषा के उपयोग पर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया और भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रोत्साहन हेतु की जा रही कोशिशों के लिए भी आभार प्रकट किया।